

May 08, 2025**To,**

**The Manager,
National Stock Exchange of India Ltd.**
Exchange Plaza, C-1, Block G,
Bandra Kurla Complex,
Bandra East, Mumbai-400051

**The Manager,
BSE Limited**
25th Floor, P. J. Towers,
Dalal Street,
Mumbai – 400001

Symbol: SATIN**Scrip Code: 539404**

**Sub: Submission of copies of Published Audited Consolidated Financial Results for the
quarter and year ended March 31, 2025**

Dear Sir/Madam,

In continuation to our intimation dated May 07, 2025, we hereby enclose copies of the Audited Consolidated Financial Results for the quarter and year ended March 31, 2025 published on May 08, 2025 in Business Standard (English and Hindi Edition).

This is for your information and record.

Thanking You.

Yours faithfully,
For **Satin Creditcare Network Limited**

(Vikas Gupta)
Company Secretary & Chief Compliance Officer

Encl: a/a

पंजाब नेशनल बैंक **punjab national bank**
...the name you can BANK upon!

CIRCLE SASTRA CENTRE, CIRCLE OFFICE BULANDSHAH, E-Mail: - CS212@pnbb.in PH NO: 9749536666

POSSESSION NOTICE Rule 8(1) Read with Section 13(41)

Whereas the undersigned being the Authorized Officer of the Punjab National Bank for the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002, and in exercise of powers conferred under Section 13 read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued demand notices as mentioned below table calling upon the respective borrowers to repay the amount as mentioned in the table within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the properties described herein below in exercise of powers conferred on him under sub-section (4) of Section 13 of the Act read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.

The borrower's guarantor's attention is invited to provisions of sub-section (6) of section 13 of the Act in respect of time available to redeem the secured assets. The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the properties and any dealing with the properties will be subject to the charge of Punjab National Bank for an amount and other expenses until payment in full.

DESCRIPTION OF IMMOVABLE PROPERTIES:

S. No.	Name of the Branch	Description of the property mortgaged	Date of Demand Notice
1.	Anoop Shahar Sati Mandi	One building measuring area 129x42 Sq.ft situated at Anoop Mandi (Pur Mandi) Kaska Anupshahar District Bulandshahr in the name of Sanjay Koushi Shri Shyam Sunam Sharma. A/c: 003100300071082	05.06.2025
2.	Aurangabad	One plot No. 0283 lying with a self of Khata No. 377, Khata No. 1321 situated at Aurangabad Dist. Bulandshahr in the name of Lokesh Vito Harindra Sharma. A/c: 161900000000286, 161900000000043	05.06.2025
3.	LDVA Anupshahar	One residential Plot area measuring 95.52 Sq.ft or 70.00 Sq.Yards situated at Khata No. 14, Nehru Nagar, in Basit Kaska Teli & Anupshahar, Bulandshahr in the name of Kamlesh Dev Vito Sunam Sharma. A/c: 473500700000103	05.06.2025
4.	M/s Raja Motors Proprietorship Chandram Prop. Suresh	One residential Plot area measuring 25.48 Sq.Yards situated at Mohalla Nehru Nagar, in Basit Kaska Teli & Anupshahar, Bulandshahr in the name of Kamlesh Dev Vito Sunam Sharma. A/c: 473500700000103	05.06.2025

Properties Details as per Title Deed:

One plot No. 0283 lying with a self of Khata No. 377, Khata No. 1321 situated at Aurangabad Dist. Bulandshahr in the name of Lokesh Vito Harindra Sharma. A/c: 161900000000286, 161900000000043

One residential Plot area measuring 25.48 Sq.Yards situated at Mohalla Nehru Nagar, in Basit Kaska Teli & Anupshahar, Bulandshahr in the name of Kamlesh Dev Vito Sunam Sharma. A/c: 473500700000103

One residential Plot area measuring 95.52 Sq.ft or 70.00 Sq.Yards situated at Khata No. 14, Nehru Nagar, in Basit Kaska Teli & Anupshahar, Bulandshahr in the name of Kamlesh Dev Vito Sunam Sharma. A/c: 473500700000103

Date: 06.05.2025, Place: Bulandshahr **Authorized Officer: Punjab National Bank**

SAMMAAN CAPITAL LIMITED
(formerly known as Indiabulls Housing Finance Limited)
Corporate Identification Number (CIN): L59220L2005PL136029
Registered Office: A-34, 2nd & 3rd Floor, Lajpat Nagar-II, New Delhi - 110 024, India
Tel: +91 1148147566 Fax: +91 1148147561 Email: homecare@sammaancapital.com
Website: www.sammaancapital.com

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL, NEW DELHI BENCH
Company Application No.: CA-CAA-492730-23/2024
In the Matter of the Companies Act, 2013

And

In the Matter of Application under Sections 230 - 232 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013

In the matter of Scheme of Arrangement amongst Sammaan Collection Agency Limited (formerly known as Indiabulls Collection Agency Limited) (CIN: U93091DL2008PL143800), a company incorporated under the provisions of the Companies Act, 1956 and having its registered office at UG Floor, Commercial Property Bearing No. BP-3, Main Pusa Road, Old Rajinder Nagar, New Delhi - 110060, India (Amalgamating / Transferor Company 1) and Sammaan Sales Limited (formerly known as Bulls Sales Limited) (CIN: U67100DL2006PL154666), a company incorporated under the provisions of the Companies Act, 1956 and having its registered office at UG Floor, Commercial Property Bearing No. BP-3, Main Pusa Road, Old Rajinder Nagar, New Delhi - 110060, India (Amalgamating / Transferor Company 2) and Sammaan Investment Services Limited (formerly known as Wipro Investment Services Limited) (CIN: U72200DL2009PL143654), a company incorporated under the provisions of the Companies Act, 1956 and having its registered office at UG Floor, Commercial Property Bearing No. BP-3, Main Pusa Road, Old Rajinder Nagar, New Delhi - 110060, India (Amalgamating / Transferor Company 3) and Indiabulls Capital Services Limited (CIN: U70200DL2005PL134949), a company incorporated under the provisions of the Companies Act, 1956 and having its registered office at UG Floor, Commercial Property Bearing No. BP-3, Main Pusa Road, Old Rajinder Nagar, New Delhi - 110060, India (Amalgamating / Transferor Company 4) and Sammaan Advisory Services Limited (formerly known as Indiabulls Advisory Services Limited) (CIN: U51101DL2006PL165168), a company incorporated under the provisions of the Companies Act, 1956 and having its registered office at UG Floor, Commercial Property Bearing No. BP-3, Main Pusa Road, Old Rajinder Nagar, New Delhi - 110060, India (Amalgamating / Transferor Company 5) and Sammaan Insurance Advisory Services Limited (formerly known as Indiabulls Insurance Advisory Services Limited) (CIN: U72200DL2007PL114257), a company incorporated under the provisions of the Companies Act, 1956 and having its registered office at UG Floor, Commercial Property Bearing No. BP-3, Main Pusa Road, Old Rajinder Nagar, New Delhi - 110060, India (Amalgamating / Transferor Company 6) and Sammaan Capital Limited (formerly known as Indiabulls Housing Finance Limited) (CIN: L59220L2005PL136029), a company incorporated under the provisions of the Companies Act, 1956 and having its registered office at A-34, 2nd & 3rd Floor, Lajpat Nagar-II, New Delhi-110024, India (Amalgamated / Transferee Company) and their respective shareholders and creditors ("Scheme of Arrangement").

NOTICE AND ADVERTISEMENT OF NOTICE OF THE MEETING OF THE EQUITY SHAREHOLDERS, SECURED CREDITORS AND UNSECURED CREDITORS OF AMALGAMATED / TRANSFEREE COMPANY,

Notice is hereby given that by an Order dated the January 27, 2025 and rectification order dated April 1, 2025 (hereinafter referred to as "Order") in Company Application No. CA/CAA/492730-23/2024, the Hon'ble National Company Law Tribunal, New Delhi Bench (NCLT) has decreed separate meetings to be held of Equity Shareholders, Secured Creditors and Unsecured Creditors of Amalgamated / Transferee Company (i.e. Sammaan Capital Limited ("SCA") for the purpose of considering, and if thought fit, approving with or without modification, the proposed Scheme of Arrangement pursuant to Sections 230 to 232 and any other applicable provisions of the Companies Act, 2013 (Act) and applicable rules made thereunder.

In pursuance of the said Order and as directed therein and in compliance with other applicable laws including relevant circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs and SEBI, Notice is hereby given that separate meetings of Equity Shareholders, Secured Creditors and Unsecured Creditors of Amalgamated / Transferee Company, will be held as per the details given below:

Sl. No.	Type of Meeting	Date	Time	Mode
1.	Meeting of Unsecured Creditors	Tuesday, June 10, 2025	10:00 A.M. (IST)	Meeting to be Convened through Video Conferencing/Other Audio
2.	Meeting of Secured Creditors	Tuesday, June 10, 2025	12:00 Noon (IST)	Video Conferencing/Other Audio
3.	Meeting of Equity Shareholders	Tuesday, June 10, 2025	5:00 P.M. (IST)	Visual Means with facility of remote voting

Copy of the Scheme of Arrangement, Notice and Explanatory Statement under Section 230(3) read with Section 102 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 read together with Rule 3 of Companies (Compromises, Arrangements and Amalgamations) Rules, 2016 and amendments thereto (CAA Rules) and Annexures thereto can be accessed and downloaded from the website of Amalgamated / Transferee Company (www.sammaancapital.com) and from the website of KfA Technologies Limited ("Kfintech") viz: <https://investing.kfintech.com>. These documents required to be published pursuant to Sections 230 to 232 of the Act can also be obtained free of charge on any working day before the meeting between 10:00 AM, to 5:00 PM, on all days (except Saturday, Sunday, public holiday) from the Registrar of Companies (RoC) registered in the respective States. The meeting shall be held at the registered office of the Company situated at A-34, 2nd & 3rd Floor, Lajpat Nagar-II, New Delhi - 110 024, Persons entitled to attend and vote at the respective meetings, may either vote using remote voting system before the meeting or voting system during the meeting. NCLT has appointed Shri L. N. Gupta, as the Chairperson, Shri P. O. Nagpal, as the Alternate Chairperson and Mr. Sumit Sharma, as the Scrutinizer of the aforesaid meetings of Equity Shareholders, Secured Creditors and Unsecured Creditors, including for any adjournment thereof as per the Order. The aforesaid Scheme of Arrangement, if approved in the aforesaid meetings, will be subject to the subsequent approval of NCLT.

Further Notice is hereby given that:

1. In compliance with the Order, the business set out in the Notices for aforesaid meetings shall be transacted through remote voting system before the meeting or existing system during the meeting. The Amalgamated / Transferee Company has provided facility of remote voting system before the meeting and e-voting system during the meeting through the platform of Kfintech Technologies Limited ("Kfintech"). The necessary instructions, for remote voting and existing have been sent out in the respective Notices dated April 30, 2025. The voting rights of the Equity Shareholders shall be in proportion to their share in the paid-up Equity Share Capital of Amalgamated / Transferee Company as on Friday, May 30, 2025 (Cut Off Date). The voting rights of Secured and Unsecured Creditors shall be in proportion to the respective principal amount due for payment by the Amalgamated / Transferee Company as on Monday, March 31, 2025 (Cut Off Date).
2. As on May 06, 2025, Amalgamated / Transferee Company has completed the dispatch of respective Notices of Equity Shareholders, Secured Creditors and Unsecured Creditors and Explanatory Statement and other Annexures thereto to the concerned Equity Shareholders as on April 25, 2025 and Secured Creditors or Unsecured Creditors as on March 31, 2025, via E-mail / Registered Post / Speed Post.
3. The remote e-voting period for the aforesaid meetings of Equity Shareholders, Secured and Unsecured Creditors of Amalgamated / Transferee Company will commence on Monday, June 2, 2025 at 10:00 A.M. (IST) and shall end on Monday, June 9, 2025 at 05:00 P.M. (IST). During this period Equity Shareholders, Secured Creditors and Unsecured Creditors of the Amalgamated / Transferee Company as on the cut-off date shall cast their votes through remote voting. The voting system facility shall be disabled by Kfintech after the aforesaid date and time. Once the vote on the matter is cast by the Equity Shareholders, Secured Creditors and Unsecured Creditors through remote voting, they will not be allowed to change it subsequently. The casting of votes by remote voting does not disentitle an Equity Shareholder, Secured and Unsecured Creditor from attending and participating in the respective Meeting. However, those who have already voted during remote voting period, prior to the date of Meetings would not be entitled to vote again at the respective Meetings. Votes may be cast at the respective Meetings and those who have not cast their vote during remote voting period before the meeting shall be entitled to exercise their right to vote at the respective Meetings.
4. The Scrutinizer of the respective meetings shall make and submit Scrutinizer's report of the total votes cast in favour and against the resolution and invalid votes, if any, to the NCLT appointed Chairman of the Meetings, in writing.
5. The Equity Shareholders, Secured and Unsecured Creditors of Amalgamated / Transferee Company as on cut-off date are encouraged to attend their respective Meetings and vote electronically, in case the Equity Shareholder, Secured and Unsecured Creditor is an individual / Corporate, then pursuant to Section 113 of the Act, they are entitled to participate in the meeting through their Authorized Representatives. Such Equity Shareholders, Secured and Unsecured Creditors are requested to send their through email info@discreetarial@sammaancapital.com or mail@sammaancapital.com and evoting@kfintech.com or deposit at the Registered Office of the Amalgamated / Transferee Company at ca@kfintech.com a certified copy of the Board Resolution / Power of Attorney / Author Letter authorizing such Authorized Representative to attend and vote at the meeting on its behalf, not less than 48 hours before the time fixed for the respective meetings.
6. In case of any grievance connected with remote e-voting and e-voting during the proceedings, the Equity Shareholders, Secured and Unsecured Creditors of Amalgamated / Transferee Company may call Kfintech at 1800-309-0007 or contact on email info@kfintech.com.
7. The results, together with the Scrutinizer's reports, will be displayed within the prescribed time, at the Registered Office of the Amalgamated / Transferee Company situated at A-34, 2nd & 3rd Floor, Lajpat Nagar-II, New Delhi-110024, India, and on the website of Amalgamated / Transferee Company, BSE Limited, National Stock Exchange of India Limited and also on the website of Kfintech.
8. The Equity Shareholders, who have till date not updated their e-mail IDs in their Demat A/c(s), are requested to update their e-mail IDs in the records of Depositories.

For Sammaan Capital Limited
(formerly known as Indiabulls Housing Finance Limited)
Sd/-
Date: May 7, 2025
Place: Gurugram
Amit Kumar Jain
Authorized Representative

TATA CONSULTANCY SERVICES LIMITED



NOTICE

Sub: Transfer of Dividend(s) and Equity Shares of the Company to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) Account

The provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 ("Act") read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("Rules"), amongst other matters, contain provisions for transfer of unclaimed dividends to IEPF and transfer of shares, in respect of which dividend remains unclaimed for seven consecutive years or more to IEPF Account. Companies are required to inform the shareholders at the latest available address whose shares are liable to be transferred to the IEPF Authority three months prior to the due date of transfer of shares and simultaneously publish the notice in the newspapers. This Notice is published pursuant to the provisions of the Act and Rules.

Individual communication is being sent to the registered address of the shareholders whose dividends are lying unclaimed for seven consecutive years and whose shares are liable to be transferred to IEPF.

The complete details of these shareholders are being uploaded on the Company's website www.tcs.com.

In case the dividends are not claimed by the concerned Shareholder(s) by August 9, 2025 for First Interim Dividend 2018-19, necessary steps will be initiated by the Company to transfer shares held by the concerned shareholder(s) to IEPF without further notice in the following manner:

- In physical form - New share certificate(s) will be issued and transferred in favour of IEPF on completion of necessary formalities. The original share certificate(s) which stand registered in the name of shareholder will be deemed cancelled and non-negotiable.
- In demat form - The Company shall inform the depository by way of corporate action for transfer of shares lying in shareholder's demat account in favour of IEPF.

The shareholders may note that in the event of transfer of shares and the unclaimed dividends to IEPF, concerned shareholder(s) are entitled to claim the same from IEPF Authority by sending physical copy of requisite documents to the Company for obtaining the entitlement letter, pursuant to Circular dated July 20, 2022 issued by IEPF Authority, and after submitting online application in the prescribed Form IEPF-3 available on the website www.mca.gov.in and access the form under MCA Services-Company e-filing-IEPF Services.

The shareholders may further note that the details of unclaimed dividends and shares of the concerned shareholder(s) uploaded by the Company on its website www.tcs.com shall be treated as adequate notice in respect of issue of the new share certificate(s) by the Company for the purpose of transfer of shares to IEPF pursuant to the Rules. Please note that no claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend and equity shares transferred to the IEPF.

In case the shareholders have any queries on the subject matter, they may contact MUMS Intime India Private Limited (Formerly Link Intime India Private Limited), Unit: Tata Consultancy Services Limited, C-001, Embassy, 247, U.S.B. Marg, Viharli (West), Mumbai - 400083, Tel: +91 810 811 8484, Website: <http://tcs.mums.mfg.com/> or raise a service request through: https://webin.mums.mfg.com/helpdesk/Service_Request.html

For Tata Consultancy Services Limited

Sd/-

Yashashwin Sethi

Company Secretary

Place: Mumbai

Date: May 7, 2025

Registered Office:
9th Floor, Nirmal Building, Nariman Point, Mumbai 400 021
Tel: +91 22 6778 5955
Email: investor.relations@tcs.com Website: www.tcs.com
CIN: L22210MH1995PLC084781



SATIN CREDITCARE NETWORK LIMITED

CIN:L69910DL1990PLC041796

Regd. Office: 5th Floor, Kunduz Avenue, Azadpur Commercial Complex, Azadpur, Delhi-110033

Corporate Office: Plot No. 492, Udyog Vihar, Phase-II, Gurugram, Haryana-122016, India

Phone: 0124-4715400. Website: www.satincare.com. E-mail: secrearial@satincare.com

Extract of Audited Consolidated Financial Results for the Quarter and Year ended March 31, 2025

S. No.	Particulars	₹ In Lakhs except EPS)			
		Quarter ended March 31, 2025	Quarter ended March 31, 2024	Year ended March 31, 2025	Year ended March 31, 2024
		Refer note 4	Refer note 4	Audited	Audited
1	Total Income from operations	62,250.42	64,688.48	2,60,190.91	2,24,052.76
2	Net (Loss) / Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items*)	1,822.89	17,107.76	23,576.79	58,288.79
3	Net (Loss) / Profit for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items*)	1,822.89	17,107.76	23,576.79	58,288.79
4	Net (Loss) / Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items*)	2,189.34	12,821.94	18,612.60	43,593.80
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising (Loss) / Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	(1131.04)	13,532.42	14,176.71	44,200.83
6	Paid up Equity Share Capital	11,004.32	11,004.32	11,004.32	11,004.32
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	1,47,213.33	1,47,213.33	1,47,213.33	1,47,213.33
8	Securities Premium Account	2,47,565.47	2,40,006.00	2,47,565.47	2,40,006.00
9	Net Worth	1,47,213.33	1,47,213.33	1,47,213.33	1,47,213.33
10	Outstanding Redeemable Preference Shares	Nil	Nil	Nil	Nil
11	Debt Equity Ratio	3.49	3.33	3.49	3.33
12	Paid up Debt Capital/Outstanding Debt	8,79,143.76	7,90,963.62	8,79,143.76	7,90,963.62
13	Earnings Per Share (₹ 10/- each) (for continuing and discontinued operations) -				
1	Basic	1.99	11.66	16.92	44.34
2	Diluted	1.99	11.66	16.92	43.27
14	Capital Redemption Reserve	2,777.00	2,777.00	2,777.00	2,777.00
15	Debture Redemption Reserve	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
16	Debt Service Coverage Ratio	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
17	Interest Service Coverage Ratio	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

*Exceptional and/or Extraordinary items adjusted in Statement of Profit & Loss in accordance with IND-AS Rules/AS Rules, whichever is applicable.

S. No.	Particulars	₹ In Lakhs			
		Quarter ended March 31, 2025	Quarter ended March 31, 2024	Year ended March 31, 2025	Year ended March 31, 2024
		Refer note 4	Refer note 4	Audited	Audited
1	Total Income	56,166.57	59,391.71	2,37,676.25	2,05,064.82
2	Profit/(Loss) Before Tax	2,100.00	16,736.49	23,297.93	56,584.95
3	Profit/(Loss) After Tax	4,104.50	12,528.05	21,656.23	42,284.41

Notes:

1. The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of Satin Creditcare Network Limited ("The Company") in their meeting held on May 07, 2025.
2. The above is an extract of the detailed form of Results filed with the Stock Exchange(s) under Regulations 33, 52 & 63 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("the Listing Regulations"), as amended from time to time. The full form of the Results are available on the website of the Company (www.satincreditcare.com) and on the websites of the Stock Exchange(s) (i.e. NSE at www.nseindia.com and BSE at www.bseindia.com).
3. For the other line items referred in Regulation 52(4) of the Listing Regulations, pertinent disclosures have been made to the Stock Exchange(s) and can be accessed through the website link given in point no. 2 above.
4. The figures for the quarter ended March 31, 2025 and March 31, 2024 represent the balancing figures between the audited figures in respect of the respective full financial years and the year-to-date figures upto the end of the third quarter of the respective financial year, which were subjected to limited review by the statutory auditors.
5. These Consolidated Results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (IND-AS) notified by the Ministry of Corporate Affairs.

For Satin Creditcare Network Limited

Sd/-

(Harvinder Pal Singh)

Chairman cum Managing Director

DIN: 00333754

Place: Gurugram

Date: 07.05.2025

POSSESSION NOTICE
(for immovable property)

Whereas,

The undersigned being the Authorized Officer of INDIABULLS ASSET RECONSTRUCTION COMPANY LIMITED (CIN:U6710MH2006PLC035512) under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002, and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notice dated 20.12.2024 calling upon the Borrower(s) YOGESH UPADHAY PROPRIETOR HOTEL VANSIKA PALACE AND JYOTI UPADHAY to repay the amount mentioned in the table within Rs. 4,121,597/- (Rupees Forty One Lakhs Twenty One Thousand Five Hundred Ninety Seven Only) against Loan Account No. H006XX01-41 (Earlier Loan Account No. HHEA00R0281063 of HFL) as on 19.12.2024 and interest thereon within 60 days from the date of receipt of the said Notice.

The Borrower(s) having failed to repay the amount, Notice is hereby given to the Borrower(s) and the public in general that the undersigned has taken symbolic possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Sub-Section (4) of Section 13 of the Act read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on 03.05.2025.

The Borrower(s) in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of Indiabulls Asset Reconstruction Company Limited, for an amount of Rs. 41,21,597/- (Rupees Forty One Lakhs Twenty One Thousand Five Hundred Ninety Seven Only) as on 19.12.2024 and interest thereon.

The Borrower's attention is invited to provisions of Sub-Section (8) of Section 13 of the Act in respect of time available to redeem the Secured Asset(s).

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY

ALL THAT PIECES OR PARCELS OR PLOT NO. 45A, ADMEASURING 175.59 SQ. MTRS., EQUIVALENT TO 210 SQ. YARDS, (MEASURING EAST TO WEST 31 FEET 6 INCH AND NORTH TO SOUTH 60 FEET), SITUATED AT E.M.E ENCLAVE, TAGORE NAGAR, TELHI, DISTRICT AGRA - 202001, UTTAR PRADESH AND WHICH IS BOUNDLESS UNDER.

EAST : ROAD OF SHALU ISRANI WEST : ROAD 25 FEET WIDE
NORTH : ROAD 30 FEET WIDE SOUTH : HOUSE OF ASHA YADAV

Date: 03.05.2025

Indiabulls Asset Reconstruction Company Limited

Place: AGRA

Authorized Officer: Harvinder Pal Singh

Trustee on Behalf Indiabulls ARC- XXXI

PUBIC NOTICE

Notice is hereby given to the public that the Sale Deed dated 15.04.1978 (Registration No. 2991), in favour of Mr. Shri Ram, Mr. Daul Ram & Mrs. Koushi Devi, for the purpose of the Property Bearing No. 141, area measuring 60 Sq. Yds. Khata No. 3008, Situated at the Subd. of Shalvi Gali, West Suburban in the area of Village Bhatnagar, Tehsil Shabarda, District, established.

Public is being warned not to deal with the documents. Any person dealing with the aforesaid documents would do so at their own risk and responsibility. Other shall be liable in any manner whatsoever for any loss incurred by such person. Anybody found these documents ORC notice and misuse of the documents, Criminal Proceeding is required to be commenced at the court address given below. Juris NextGen LLP E-66, LGF, Greater Kailash Extn. Part-1, New Delhi-110 048



NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LTD.

(Incorporated in India, having its registered office at 5, Market Street, Chennai-600 009, India)

PUBLIC NOTICE

Public Notice for Compulsory Delisting of Equity Shares of Companies in terms of Regulation 32 (3) of SEBI (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021.

In terms of Regulation 32 (3) of SEBI (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021 (Delisting Regulations), the National Stock Exchange of India Limited ("NSE") is hereby giving notice to the promoters, directors, and shareholders of the Company, in favour of Mr. Shri Ram, Mr. Daul Ram & Mrs. Koushi Devi, for the purpose of the Property Bearing No. 141, area measuring 60 Sq. Yds. Khata No. 3008, Situated at the Subd. of Shalvi Gali, West Suburban in the area of Village Bhatnagar, Tehsil Shabarda, District, established.

The Company has issued Show Cause Notice to the Company at the last known address and requested email address as per the Exchange records, asking the said Company to SEBI (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021. The Company is hereby giving notice to the promoters, directors, and shareholders of the Company, in favour of Mr. Shri Ram, Mr. Daul Ram & Mrs. Koushi Devi, for the purpose of the Property Bearing No. 141, area measuring 60 Sq. Yds. Khata No. 3008, Situated at the Subd. of Shalvi Gali, West Suburban in the area of Village Bhatnagar, Tehsil Shabarda, District, established.

*Address available as per the records of the Exchange.

The consequences of compulsory delisting include the following:

- The above companies will cease to be listed on the Stock Exchange. These companies will be moved to the Dissemination board of the Stock Exchange.

Notice to Appear / Attend Proceedings of DLM&SFC-Ludh

Through this Publication This is for Constructive Notice for respondent MS GOEL CUP PITH WARD SAREE BHANDAR 33 B, NEW MANDI, MUZZAFARNAGAR, Uttar Pradesh, 251001 appear in person or through authorized representative before the District Level Micro & Small facilitation Council Ludhiana, District Industries Centre, Ludhiana dated 18-08-2025 regarding claim reference petition submitted by claimant LUXMI YODG Ulu 18(1) of MSMED Act 2006 bearing reference number MSFCNUGO/2025/179. If respondent fails or omits to appear at the said hearing without sufficient cause, the conduct of the proceedings shall continue in his/her absence and all award shall also be passed on the basis of evidence before the council.

Member Secretary cum General Manager, District Industries Centre, Industrial Estate, Ludhiana.
Ph.No-0161-2540695, Email Id: dcludhiana5@gmail.com, ludhiana_mscsfec@gmail.com

homefirst **Home First Finance Company India Limited**
 CIN : L65990MH2010PLC240703 Website: homefirstindia.com
 Phone No.: 1800330008425 Email ID: loanfirst@homefirstindia.com

<div>कक्षा सूचना</div> <div>(अनंत संपीर्ण हेतु)</div>	
<p>उच्च कैपिटल लिमिटेड (CIN-1.65922DL2005PLC136029) (एकले इंडियाबाहुमल हारांसल फाइनल लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अबदेवताधारी ने दिशेनोतिरुपदेवत एंड रिजिस्ट्रारजनरल ऑफ फायनान्सियल अफेयर्स एंड एकोनोमिज ऑफ सिक्नरीटोरी इंटरस एक्ट, 2002 के अंतर्गत और विषय 5 के साथ धारा 13(12) के साथ निम्नलिखित अध्यादेश (एकोनोमिज) कृत्य, 2002 के साथ फरती हुए प्रभाव अधिकारों का उपयोग करके कर्नलर संगेज उपाध्यायस प्रोड्राइवर होटल वंरिजरा पैलेस और न्योतिर उपाध्याय की 20.12.2024 की सूचना में वर्नन के अनुसार कर्नलर न्याय में, HHLAGR00280149 और HLAAPAGR00497286 की रांति क. 48.40.354.84 (कथपे अडवालीस लाभर चालीस हजार तीन बी चौवन और चौबीसी पैसे मात्र) और 19.12.2024 के अनुसार उस पर न्याज उक्त सूचना की प्रांती की तरतरीस से स्पष्ट 80 दिने के अंतर चुकना करने का अडवाल करने हुए अधिवचनन सूचना जारी की है।</p> <p>धरतीरा युवता कर्नन में कर्नलरी के अभावाल करने पर एवदुत्तर कर्नलर और संवे सम्पत्त्य जना की सूचना से जाली है कि, अधोलावकारी ने उक्त कानुन की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानुन के निषय 8 की तहदा विषयगोतीर इंटरस (एकोनोमिज) कृत्य, 2002 के तहदा प्राप अधिकारी का कारपीननन करके 03.05.2025 को संपीर्ण पर सांकेतिक अधिपचार कर निषय है।</p> <p>विशेषन: कर्नलरी और सम्पाजन: जनन की एनदुत्तरा संपीर्ण के खय सीस नही करने के लिए सम्पाजन किता जाला है और संपीर्ण के खय नोवे भी सही रांति क. 48.40.354.84 (कथपे अडवालीस लाभर चालीस हजार तीन बी चौवन और चौबीसी पैसे मात्र) 19.12.2024 के अनुसार और उस पर न्याज के साथ सम्पाजन कैपिटल लिमिटेड (एकले इंडियाबाहुमल हारांसल फाइनल लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) के अधीन होय।</p> <p>उत्तराकर्नलरी का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अंतर्गत संपीर्ण / संपीर्णों को मुक्त करने के लिए अडवालक समय की ओर आधीन किता जाला है।</p>	
अनंत संपीर्ण का विवरण	
<p>प्लॉट नं. 45-ए के साथ धारा और खंड, मापित 175.58 रुपये, मीटर्स, 210 रुपये, यांडस के बरबर (माप: चूई से पहिम 31 फीट 8 इंच और उत्तर से पहिम 60 फीट), ई.एम.ई. एनकेलर पर विनल, जालाजत बाई, तहसिल और जिला अमरात, अमरा-282001, उत्तर प्रदेश और नो निमादुत्तरा परिकल्पन।</p> <p>पूर्वी : शन्तु इमली का प्लॉट</p> <p>उत्तर : 30 फीट चौड़ी सड़क</p>	<p>पश्चिम : सड़क 25 फीट चौड़ी</p> <p>दक्षिण : आरा यादव का प्लॉट</p>
<p>दिनांक : 03.05.2025</p> <p>स्थान : अमरा</p>	<p>प्राधिकृत अधिकारी</p> <p>सम्पादक कैपिटल लिमिटेड</p> <p>(एकले इंडियाबाहुमल हारांसल फाइनल लिमिटेड के नाम से जाना जाता है)</p>

SATIN CREDITCARE NETWORK LIMITED

CIN: L65991DL1990PLC041796

Regd. Office: 5th Floor, Kundan Bhawan, Azadpur Commercial Complex, Azadpur, Delhi-110033

Corporate Office: Plot No. 492, Udyog Vihar, Phase-II, Gurugram, Haryana-122016, India

Phone: 0124-4715400, Website: www.satincreditcare.com, E-mail: secretarial@satincreditcare.com

Extract of Audited Consolidated Financial Results for the Quarter and Year ended March 31, 2025

(₹ in Lakhs except EPS)

S. No.	Particulars	Quarter ended March 31, 2025	Quarter ended March 31, 2024	Year ended March 31, 2025	Year ended March 31, 2024
		Refer note 4	Refer note 4	Audited	Audited
1	Total Income from operations	62,250.42	64,688.48	2,60,190.91	2,24,052.78
2	Net (Loss) / Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items*)	1,822.89	17,107.76	23,576.79	58,288.79
3	Net (Loss) / Profit for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items*)	1,822.89	17,107.76	23,576.79	58,288.79
4	Net (Loss) / Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items*)	2,189.34	12,821.94	18,612.60	43,593.80
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising (Loss) / Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(1131.04)	13,532.42	14,176.71	44,200.83
6	Paid up Equity Share Capital	11,004.32	11,004.32	11,004.32	11,004.32
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year			2,43,281.99	2,29,080.51
8	Securities Premium Account	1,47,213.33	1,47,213.33	1,47,213.33	1,47,213.33
9	Net Worth	2,47,565.47	2,40,000.06	2,47,565.47	2,40,000.06
10	Outstanding Redeemable Preference Shares	Nil	Nil	Nil	Nil
11	Debt Equity Ratio	3.49	3.33	3.49	3.33
12	Paid up Debt Capital/Outstanding Debt	8,79,143.76	7,90,963.62	8,79,143.76	7,90,963.62
13	Earnings Per Share (₹ 10/- each) (for continuing and discontinued operations) -				
	1. Basic:	1.99	11.66	16.92	44.34
	2. Diluted:	1.99	11.66	16.92	43.27
14	Capital Redemption Reserve	2,777.00	2,777.00	2,777.00	2,777.00
15	Debenture Redemption Reserve	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
16	Debt Service Coverage Ratio	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
17	Interest Service Coverage Ratio	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

*Exceptional and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit & Loss in accordance with Ind-AS Rules/AS Rules, whichever is applicable.

(₹ in Lakhs)

Brief of Audited Standalone Financial Results for the Quarter and Year ended March 31, 2025

S. No.	Particulars	Quarter ended March 31, 2025	Quarter ended March 31, 2024	Year ended March 31, 2025	Year ended March 31, 2024
		Refer note 4	Refer note 4	Audited	Audited
1	Total Income	56,166.57	59,391.71	2,37,676.25	2,05,064.82
2	Profit/(Loss) Before Tax	2,100.00	16,736.49	23,297.93	56,584.95
3	Profit/(Loss) After Tax	4,104.50	12,528.05	21,656.23	42,284.41

Notes:

- The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of Satin Creditcare Network Limited ('the Company') in their meeting held on May 07, 2025.
- The above is an extract of the detailed format of Results filed with the Stock Exchange(s) under Regulations 33, 52 & 63 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('the Listing Regulations'), as amended from time to time. The full format of the Results are available on the website of the Company (i.e. www.satincreditcare.com) and on the websites of the Stock Exchange(s) (i.e. NSE at www.nseindia.com and BSE at www.bseindia.com).
- For the other line items referred in Regulation 52(4) of the Listing Regulations, pertinent disclosures have been made to the Stock Exchange(s) and can be accessed through the website link given in point no. 2 above.
- The figures for the quarter ended March 31, 2025 and March 31, 2024 represent the balancing figures between the audited figures in respect of the respective full financial years and the published year to date figures upto the end of the third quarter of the respective financial year, which were subjected to limited review by the statutory auditors.
- These Consolidated Results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (IND-AS) notified by the Ministry of Corporate Affairs.

For Satin Creditcare Network Limited
Sd/-
(Harvinder Pal Singh)
Chairman cum Managing Director
DIN: 00333757

Place: Gurugram
 Date: 07.05.2025

प्रपत्र सं. 5		ऋण वसूली दिव्यलाल			
600/1, युनिवर्सिटी रोड, हुगणान लेतु मंदिर के पास, लखनऊ-226007 (न्यायाधिकार प्राप्त : उत्तर प्रदेश का भाग)		उत्तर और उपरिस्थिति दाखिल करने के लिए समन			
ओ.ए. नं. 939/2024		दिनांक: 04.04.2025			
(पारा 19(3) के अंतर्गत और विवाद को संतुल्यता के अधिनियम, 1993 के अंतर्गत अनु की वसूली के नियम 12 और 13 के संघर्ष पठित करण वसूली दिव्यलाल (प्रक्रिया नियम, 1993) के अंतर्गत प्रतिक्रिया की समन		एचडीएफसी बैंक लिमिटेड			
प्रत्यक्ष पठित, विधान सभा के पास, 38, दशरथी लाल शर्मा मार्ग, लखनऊ		आवेदक			
मेनर्स शिवांग इंटरप्राइसेस और अन्य		बनाम			
प्रति, प्रतिक्रिया		प्रतिवादी			
1. मेनर्स शिवांग इंटरप्राइसेस (उपारखता) (GSTIN No. 09ALYF706491124)					
प्रमाण प्रतिक्रिया की कुवदीय करण का के भाग्य में कार्यवाही पत्र-सी-348, प्रमाण लत, रामफल चौक द्राष्टिक दिल्ली-110075, (पुनः नाम ALYF706491124) द्वारा अधिलिखित : पदत पत्र-2103, अकनगा इंडिपेंडेंट					
2. श्री कुवदीय करण झा (गर्लफ्रेड) (प्राधिकार मेनर्स शिवांग इंटरप्राइसेस और अन्य) पुनः कुवदीय करण शिवांगी पत्र-सी-348, प्रमाण लत, रामफल चौक द्राष्टिक दिल्ली-110075, इसके अधिलिखित : पदत पत्र-2103, अकनगा इंडिपेंडेंट नाम परावर्तित, गाजियाबाद-उ.प्र. 201001					
3. श्रीमती पूजा (गर्लफ्रेड) (द्वारा) कुवदीय करण झा, शिवांगी पत्र-सी-348, प्रमाण लत, रामफल चौक दिल्ली-110075					
उपरोक्त विषयों पर उत्तर में आगमने इस दिखलान में पुराने का रूप से या अपने निश्चित अधिकृत एजेंट का कानूनी प्रतिक्रिया के भाग्य में दस्तावेजों और अधिलिखित (यदि कोई हो) काय से या अपने एक प्रमाण में उत्तर दायी काया होता हो। समन के अलावा के भाग्य में आगमने या उसके अधिलिखित / मित्रित प्रक्रियाएं एजेंट को दस्तावेज प्रेषित करने के बाद 04.04.2025 के बाद अधिकतम 10.30 बजे पर दिखलान के समक अधिलिखित होना, हिसा न होने पर आगे के को आगमने अनुवर्ती प्रतिक्रिया में पुनः नामकरण और उत्तर पर निश्चित दिखलान का अधिलिखित					
पंजीयन ऋण वसूली दिव्यलाल, लखनऊ					

[illegible][illegible][illegible]

ASSET

to educate and create awareness among the
et Mutual Fund undertakes numerous events
ry and in number of ways such as conducting
ars, contents on investor awareness in print
grams on Mutual Funds in electronic media

coming IAP:

Address
ba A Punjabi, A 5, Shivaji Marg, C-Block, Rajouri Garden, Delhi - 110 015.

eger: **Mirae Asset Investment Managers (India)**
nsor Building, Off CST Road, Kalina, Santacruz (E),
ercare@miraeeasset.com ☎ www.miraeeassetmf.co.in

re subject to market risks,
documents carefully.

[illegible]

वैभवता को योग्य नये नीति, धारा 230(3) के तहत गैरिदर और व्याख्यात्मक विवरण धारा 102 के तहत पड़े, और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य तहत गणपती को कंपनी (समाहित), व्याख्या और लागूमान) नियम 2016 के नियम 6 और उसके सम्बंधित (सौराणिक) के साथ पड़े, और उसके अनुलम्बको के सम्बंधित (हस्तांतरित कंपनी की वेबसाइट (www.sammamaincapital.com) और केवल टैमोनीनीनी लिमिटेड ("केवलितर") की वेबसाइट (<https://evolving.kfintech.com>) से ले सकते हैं। अधिनियम को धारा 230 से 232 के अनुसार प्रकृतिता किए जानेवाले वे दस्तावेज सम्बंधित/हस्तांतरित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय से प-34, दूसरी और तीसरी मंजूर, लागूमान नगर-1, नई दिल्ली - 110024 से बैठक के पहले किसी भी कार्य दिवस पर सुबह 10:00 बजे से शम 05:00 बजे के बीच सभी दिनों को (शनिवार, रविवार और सार्वजनिक छुट्टियों को छोड़कर) नि-गुण्य प्राप्त किया जा सकते हैं। संबंधित बैठकों में भाग लेने और मतदान करने के लिए प्राप्त व्यक्ति या तं रिमोट ई-वोटिंग सिस्टम या बैठक के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम का उपयोग करके मतदान कर सकते हैं।

एसोसिएटों ने श्री एन. एन. को अग्रज, श्री ओ. पी. कापाल को वैकल्पिक अध्यक्ष और श्री सुमित शर्मा को एसोसिएटों के आदर के अनुसार किसी भी स्थान सहित उपरोक्त सभी इन्डिटी शेयरधारकों, सुरक्षित लेनदारों और असुरक्षित लेनदारों को बैठकों के लिए आवश्यकता के रूप में नियुक्त किया है। यदि योजना को उपरोक्त बैठकों में मंजुरी मिल जाती है, तो वह एसोसिएटों के बाद के अनुवीनन के अधीन होगी।

इसके अतिरिक्त यह भी सूचना दी जाती है कि:

- 1) अग्रज के अनुपानन में, उपरोक्त बैठकों के लिए गैरिदर में निर्धारित कार्य बैठक से पहले रिमोट ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से तथा या बैठक के दौरान ई-वोटिंग को सुविधा के साथ किया जाएगा। सम्मेलित/हस्तांतरित कंपनी ने केवल टैमोनीनीनी लिमिटेड ("केवलितर") के पोर्टफोलियो के माध्यम से बैठक में पहले रिमोट ई-वोटिंग प्रणाली और बैठक के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली को सुविधा प्रदान की है। रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग के लिए आवश्यक निर्देश 30 अप्रैल, 2025 को संबंधित सूचना में दिए गए हैं। इन्डिटी शेयरधारकों को वोटिंग अधिकार सुक्रार, 30 अप्रैल, 2025 (बट-ऑफ तिथि) को सम्मेलित/हस्तांतरित कंपनी की नुकल इन्डिटी शेयर पुत्री में उनके हिस्से के अनुपानन में होगा। सुरक्षित लेनदारों और असुरक्षित लेनदारों के वोटिंग अधिकार सोमवार, 31 मार्च, 2025 (बट-ऑफ तिथि) को सम्मेलित/हस्तांतरित कंपनी द्वारा प्रुता के लिए दय गुराई के अनुसार में होंगे।
- 2) 06 अप्रैल, 2025 तक, सम्मेलित/हस्तांतरित कंपनी ने 25 अप्रैल, 2025 के इन्डिटी शेयरधारकों और 31 मार्च 2025 के सुरक्षित/असुरक्षित लेनदारों को ईमेल/पंजीकृत डाक/पब्लिश पोस्ट के माध्यम से इन्डिटी शेयरधारकों और सुरक्षित/असुरक्षित लेनदारों की बैठकों की संबंधित सूचना और व्याख्यात्मक विवरण और अन्य अनुलम्बकों का प्रेषण पूरा कर दिया है।
- 3) सम्मेलित/हस्तांतरित कंपनी के इन्डिटी शेयरधारकों, सुरक्षित और असुरक्षित लेनदारों को उपरोक्त बैठकों के लिए रिमोट ई-वोटिंग की अर्वाध सोमवार, 02 जुन, 2025 को सुबह 10:00 बजे (आईएसटी) से शुरू होगी और सोमवार, 09 जुन, 2025 को शाम 05:00 बजे (आईएसटी) को समाप्त होगी। इस अर्वाध के दौरान सम्मेलित/हस्तांतरित कंपनी के इन्डिटी शेयरधारकों, सुरक्षित और असुरक्षित लेनदार को ऑफ तिथि के अनुसार रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान होना होगा। उपरोक्त तिथि और समय के बाद केवलितर द्वारा रिमोट ई-वोटिंग सुविधा को बंद कर दिया जाएगा। एक बार जब इन्डिटी शेयरधारकों, सुरक्षित और असुरक्षित लेनदारों द्वारा रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने पर वोट डाला जाता है, तो उसके बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं होगी। रिमोट ई-वोटिंग द्वारा वोट डालने से इन्डिटी शेयरधारकों, सुरक्षित और असुरक्षित लेनदार संबंधित बैठक में भाग लेने से बचने नहीं होते हैं। हालांकि, जो लोग बैठक की तिथि से पहले ही मतदान कर चुके हैं, वे संबंधित बैठक में मतदान करने के हकदार नहीं होंगे। संबंधित बैठक में वोट डाले जा सकते हैं और जिन लोगों ने बैठक से पहले अपना वोट नहीं डाला है, वे संबंधित बैठक में अपने वोट के अधिकार का प्रयोग करने के हकदार होंगे।
- 4) संबंधित बैठकों के जानकारी प्रस्तुत के पक्ष में और विषय में सले गए वृत्त मतों तथा यदि कोई अमान्य मत हों, को एक समोचित संबंधित रिपोर्ट बनाने बैठकों के लिए एसोसिएटों द्वारा निगुता अग्रज को लिखित रूप में प्रस्तुत करने।
- 5) सम्मेलित/हस्तांतरित कंपनी के बट-ऑफ तिथि के इन्डिटी शेयरधारकों, सुरक्षित और असुरक्षित लेनदारों को अपनी-अपनी बैठकों में भाग लेने के लिए उपस्थित होने तथा इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यदि इन्डिटी शेयरधारकों, सुरक्षित और असुरक्षित लेनदार कोई संस्था/काउंटी है तो अधिनियम को धारा 112 के अनुसार, वे अपने पंजीकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से बैठकों में भाग लेने के हकदार हैं। संबंधित कंपनी के ऐसे इन्डिटी शेयरधारकों और असुरक्षित लेनदार को वोट के प्रस्तुत/पवर ऑफ आर्टोर्नी/माधिकरण पत्र की विनिर्वात प्रमाणित होगी, जो ऐसे अधिकृत प्रतिनिधियों को बैठकों में भाग लेने और मतदान करने के लिए अधिकृत करती है। ibsecretarial@sammamaincapital.com, mail@sumitisharma.in और evolving.kfintech.com पर ईमेल के माध्यम से योजना होगा सम्मेलित/हस्तांतरित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में संबंधित बैठक के लिए निर्धारित समय से कम से कम 48 घंटे पहले जाया करना होगा।
- 6) रिमोट ई-वोटिंग और बैठकों के दौरान ई-वोटिंग से जुड़ी किसी भी शिकायत के मामले में, सम्मेलित/हस्तांतरित कंपनी के इन्डिटी शेयरधारकों, सुरक्षित और असुरक्षित लेनदार 1800-309-4001 पर केवलितर को कॉल कर सकते हैं या ईमेल आईडी (evolving.kfintech.com) पर संघर्ष कर सकते हैं।
- 7) परिणाम, जानकारी को रिपोर्ट के साथ, निर्धारित समय में, सम्मेलित/हस्तांतरित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय प-34, दूसरी और तीसरी मंजूर, लागूमान नगर-1, नई दिल्ली-110024, भारत के पते पर निर्देशित/हस्तांतरित कंपनी की वेबसाइट, www.sammamaincapital.com और ईमेल लिमिटेड और शेयरान स्टॉक एक्सचेंज ऑन लाईन निर्देशित और केवलितर को वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किए जाएंगे।
- 8) जिन इन्डिटी शेयरधारकों ने अभी तक अपने वोटों खाता में ई-मेल आईडी अपडेट नहीं की है, उनसे अनुरोध है कि वे डिवाइजरी के निर्वाह में अपनी ई-मेल आईडी अपडेट करा लें।

सम्मान कोषितर लिमिटेड के लिए
(पूर्व में इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)

हस्ताक्षरकर्ता/-
अमित कुमार जैन
अधिकृत प्रतिनिधि